



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 19, 1983/चैत्र 29, 1905
No. 186] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 19, 1983/CHAITRA 29, 1905

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

घाणिष्ठ्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 1983

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का० आ० 322 (अ)/सं०: ई (सी) ओ. 1977/ए. एम. (256)।—आयात और निर्यात
(नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड-3 द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते
हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित
आदेश का निर्माण करती है, अर्थात्:—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) छोटा संशोधन आदेश, 1983 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में,

(क) अनुसूची-1, भाग "ख" में क्रम सं० 71 को पुनः 71 (i) की क्रम संख्या दी जाएगी
और उसके पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा:—

"71 (ii) पटसन की दरियों की बैंक का कपड़ा"।

(ख) खुले सामान्य लाइसेंस 4 में, अनुसूची 3 में क्रम सं० : 20 पर वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :—

क्रम सं०	विवरण	अनुसूची 1 के भाग "ख" के अनुसार क्रम सं० :	सरणीबद्ध अभि-करण
1	2	3	4
20 (1)	कच्चा पटसन, नेस्टा और पटसन की कतरने, कैंडीज को छोड़कर	ख, 71 (i)	भारतीय पटसन निगम
(2)	पटसन की बरियों की बॉक का कपड़ा, जब वह उत्तरी अमेरिका के देशों को निर्यात किया गया हो।	ख, 71 (ii)	राज्य व्यापार निगम

[मिसिल सं० : 18/1/83-ई 1]

रोमा मजुमदार, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 19th April, 1983

(EXPORT TRADE CONTROL)

S.O.322(F)/No. E.(C)O. 1977/AM(259) :—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. This Order may be called the Exports (Control) Sixth Amendment Order, 1983.

2. In the Exports (Control) Order, 1977,

(a) In Part 'B' Schedule I, Sl. No 71 shall be renumbered as Sl. No. 71(i) and the following entry shall be added thereafter :—

"71 (ii) Jute Carpet Backing Cloth"

(b) In OGL:4, Schedule III the existing entry at Sl. No. 20 shall be substituted by the following :—

Sl. No.	Item	Sl.No. as in Part. 'B' of Schedule I	Canalising Agency.
1	2	3	4
20 (i)	Raw jute, mesta and jute cuttings excluding Caddies	B. 71 (i)	Jute Corporation of India
(ii)	Jute carpet backing cloth when exported to countries in North America.	B. 71 (ii)	State Trading Corporation.

[File No. 18/1/83-El]

ROMA MAZUMDAR, Chief Controller
Imports & Exports